RASOI LIMITED

REGISTERED OFFICE:
RASOI COURT

20, SIR Å, N. MUKHERJEE ROAD
KOLKATA-700 001

PHONE : 2248-0114/5 GRAM : R A S O I FAX : 91 33 22481200

March 11, 2019

The Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
25th Floor, Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001

Scrip Code: 507649

Subject: Exit Offer Public Announcement issued by J. L. Morison (India) Limited, Pallawi Resources Limited, Leaders Healthcare Limited, Mrs. Shashi Mody and Mrs. Sakshi Mody (collectively referred to as "Acquirers"), for providing exit opportunity to Residual Public Shareholders of the Company in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Delisting Of Equity Shares) Regulations, 2009 ("Delisting Regulations").

Dear Sir,

This is in reference to the captioned subject. We have received a copy of the Exit Offer Public Announcement dated 08.03.2019 issued by J. L. Morison (India) Limited, Pallawi Resources Limited, Leaders Healthcare Limited, Mrs. Shashi Mody and Mrs. Sakshi Mody (Collection) in accordance with the provisions of the Population

		W
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		20
	COI LIMI	
-	Kolkata Kill	
	Kolkata (700 001)	

21 and other applicable provisons of the Delisting Regulations. The said Exit Offer Public Announcement was published on 11.03.2019 in the following newspapers:

Newspaper	Language	Edition
Financial Express	English	All Editions
Jansatta	Hindi	All Editions
Nav Shakti	Marathi	Mumbai Edition

Please find enclosed the copy of the said Exit Offer Public Announcement for your reference and records.

Website: www.rasoigroup.in | E-mail: secdept@rasoigroup.in CIN: L25190WB1905PLC001594

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF

RASOI LIMITED

CIN: L25190WB1905PLC001594

Registered Office: Rasoi Court, 20 Sir R N Mukherjee Road, Kolkata- 700 001 Executive Director, Company Secretary & Compliance Officer: Mr. Naresh Patangi

Phone No.: (033) 2248 0114/15; Fax No.: (033) 2248 1200 E-mail: secdept@rasoigroup.in; Website: www.rasoigroup.in This Exit Offer Public Announcement ("Exit Offer PA") is being issued in accordance with Regulation 21 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as

amended from time to time ("Delisting Regulations") by J. L. Morison (India) Limited ("JLMIL"), Pallawi Resources Limited ("PRL"), Leaders Healthcare Limited ("LHL"), Mrs. Shashi Mody and Mrs. Sakshi Mody (hereinafter collectively referred to as the "Acquirers"), to provide the remaining Public Shareholders ("Residual Public Shareholders") of Rasoi Limited (hereinafter referred to as the "Company"/ "RASOI") an exit opportunity in respect of the voluntary delisting of the Equity Shares of face value of Rs. 200/- each of the Company from BSE Limited. The Acquirers intend to acquire

9,267 (Nine Thousand Two Hundred Sixty Seven) Equity Shares representing 9,59% of fully paid up equity share capital of the Company held by the Residual Public Shareholders. This Exit Offer PA is in continuation of, and should be read in conjunction with (i) the Public Announcement dated January 21, 2019 ("Public Announcement") "PA"), (ii) the Letter of Offer Announcement (3, 2014) ("The Public Announcement") "PA"), (ii) the Letter of Offer dated January 22, 2019 ("Letter of Offer"/ "LOF") and (iii) the Post Offer Public Announcement dated February 11, 2019 ("Post Offer PA").

Capitalised terms used but not defined in this Exit Offer PA shall have the same meaning assigned to them as in the Public Announcement, the Letter of Offer, the Post Offer PA and the Exit Letter of Offer (As defined below).

INTIMATION OF DATE OF DELISTING

2.2

SUMEDHA

- Following the closure of the Delisting Offer and in accordance with the Delisting Regulations, the Company had 1 1 applied to BSE Limited ("BSE") i.e. the only Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed on February 20, 2019 seeking the final approval for delisting of its Equity Shares from the BSE. 1.2 BSE vide its notice number 20190308-14 dated March 08, 2019 ("BSE Final Delisting Approval"), has
- communicated that trading in the Equity Shares of the Company (Scrip Code: 507649) will be discontinued with effect from Friday, March 22, 2019 ("BSE Date of Discontinuance of Trading") and the above referred scrip will be delisted from BSE with effect from Friday, March 29, 2019 ("BSE Date of Delisting"). DELISTING OF THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY MEANS THAT THE EQUITY SHARES OF

THE COMPANY CANNOT AND WILL NOT BE TRADED ON BSE.

- 2. OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING 2 1 In accordance with regulation 21(1) of the Delisting Regulations, and as announced earlier in the Post Offer
- PA, the Residual Public Shareholders of the Company who did not participate or were not able to participate in the Reverse Book Building Process ("RBB Process") or who unsuccessfully tendered their Equity Shares
- in RBB process and are currently holding Equity Shares in the Company will be able to offer their Equity Shares to the Acquirers at the price of Rs. 32,000/- per Equity Share ("Exit Price") for a period of one year starting from the Date of Delisting i.e., from March 29, 2019 to March 28, 2020 ("Exit Period"/ "Exit Window").

The Exit Letter of Offer along with Exit Application Forms ("Exit Letter of Offer") in this regard shall be dispatched to the Residual Public Shareholders whose names appear in the register of members of the Company/ list of beneficial owners to be furnished by respective depositories as on March 26, 2019. In the event of any Shareholder not receiving, or misplacing their Exit Letter of Offer, they may obtain a copy of the same by writing to the Registrar to the Delisting Offer, C B Management Services (P) Limited, clearly marking the envelope "RASOI LIMITED - EXIT OFFER" at P-22, Bondel Road, Kolkata-700 019. Alternatively, the Residual Public

- Shareholders will be able to download the Exit Letter of Offer from the website of the Manager to the Delisting Offer, Sumedha Fiscal Services Limited at www.sumedhafiscal.com or from the website of the Registrar to the Delisting Offer, C B Management Services (P) Limited at www.cbmsl.com. 3. PAYMENT OF CONSIDERATION TO RESIDUAL PUBLIC SHAREHOLDERS
- Subject to any regulatory approvals as may be required, the Acquirers intend to make payments on a monthly basis, within 10 days of the end of the relevant calendar month ("Monthly Payment Cycle"). The first Monthly

Payment Cycle shall commence in 10 days from May 01, 2019 for shares tendered upto April 30, 2019. Payments will be made only to those Shareholders who have validly tendered their Equity Shares, by following the instructions laid out in the Exit Letter of Offer. The Acquirers reserve the right to make the payment earlier. If the Residual Public Shareholders have any query, they may contact the Manager to the Delisting Offer or to

the Registrar to the Delisting Offer at details appearing below. MANAGER TO THE DELISTING OFFER: REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER:

CIN: L70101WB1989PLC047465 SEBI REGN No: INM000008753 Validity of Registration: Permanent (Contact Person: Mr. Ajay K. Laddha) 6A Geetanjali, 6th Floor, 8B Middleton Street, Kolkata -700 071 Tel No.: (033) 2229 8936

Fax No.: (033) 2226 4140

Email: delisting_mb@sumedhafiscal.com Website: www.sumedhafiscal.com

Signed on behalf of the Acquirers

For Pallawi Resources Limited

SUMEDHA FISCAL SERVICES LIMITED

Sd/-Name: Ratnesh Kumar Chaudhary **Designation: Director**

For Leaders Healthcare Limited

Sd/-

Name: Kuldip Balasia **Designation: Director** For J. L. Morison (India) Limited

Sd/-

Name: Sohan Sarda

Designation: Executive Director & CEO

Name: Lalit Kumar Bararia **Designation: Director**

Designation: Director Sd/-

Name: Pratick Saha

Name: Suprava Rakshit **Designation: Director**

Name: Sonal Naik

Designation: Company Secretary & Compliance Officer

Sd/-Sakshi Mody

Place: Kolkata

Sd/-

Shashi Mody Date: March 08, 2019

C B MANAGEMENT SERVICES (P) LIMITED

CIN: U74140WB1994PTC062959

SEBI REGN No: INR000003324

Fax No.: (033) 4011 6739

Website: www.cbmsl.com

Email: rta@cbmsl.com

Validity of Registration: Permanent (Contact Person: Mr. Subhabrata Biswas)

P-22, Bondel Road, Kolkata - 700 019

Tel No.: (033) 4011 6700, 4011 6715

FINANCIAL EXPRESS

GLOBAL RATES' IMPACT

Pradhan seeks Saudi help to tame fuel prices

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, March 10

WITH OIL PRICES on the boil just as general elections are announced, oil minister Dharmendra Pradhan has asked world's largest oil exporter Saudi Arabia to play an active role in keeping rates at a reasonable level.

Petrol and diesel prices have risen by over ₹2 per litre in last one month as international rates have risen on hopes of the United States and China ending a trade war that has slowed down the global economic growth and Opec ally Russia saying it would ramp up its crude supply cuts.

Pradhan raised the issue of rising oil prices with the visiting Saudi oil minister Khalid Al-Falih late last night and sought a role of the Kingdom in cooling rates. "Shared my concern on the

rising oil prices and sought active role to be played by Saudi Arabia for keeping oil prices at reasonable level," he tweeted after the meeting.

An official statement issued Sunday said: "During the meet-



ing, Pradhan referred to Saudi Arabia's pre-eminent role as a leading producer of crude oil in the world, and in maintaining global oil market balance."

"He raised concerns about increasing trend in global crude oil prices. He also pointed to the need for uninterrupted supplies of crude oil and LPG to India in view of the Opec-plus (decision to) cut (output)," it said.

Both ministers, it said, also discussed about the possible adverse impact of recent geopolitical developments on global oil market.

It, however, did not say about the Saudi oil minister's response to India's demand.

Petrol and diesel prices, which are revised daily, have been on the rise for the last one month or so. Petrol price in Delhi has increased by ₹2.12 a litre to ₹72.40 on Sunday, while diesel rates have risen by ₹2.03 to ₹67.54 per litre.

The statement said the visit of the Saudi oil minister was a follow up of first state visit of Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud last month.



EPF transfer on job change to become automated from FY20

Subscribers of retirement fund body EPFO would not require to file employee provi-

dent fund transfer claims on changing jobs from the next fiscal as the process would be made automated, according to a labour ministry official.

Govt cancels sixth, seventh rounds of coal mines auction

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, March 10

THE CENTRE HAS cancelled the sixth and seventh rounds of coal mines auction under which it was

planning to put on sale 19 blocks. The coal ministry in a notice to the bidders said that 'the 6th Tranche and 7th Tranche of auction stands cancelled'. However,

> FORM No. INC-26 BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, KOLKATA In the matter of sub-section (4)

of Section 13 of the Companies Act. 2013

In the matter of the Rule 30 (5)(a)

the matter of: AAR COMMERCIAL CO.

LIMITED having its Registered Office at 1. British ndia Street (Old Complex) Mezzanine Floor

clice is nereby given to the general public that

re company proposes to make application to th

egion, Ministry Of Corporate Affairs, Kolkatz

nder Section 12 and 13 and other applicable

rovisions, if any, of the Companies Act, 2013 and

Rules made thereunder seleund confirmation of

ilteration of the memorandum of association of

he company in terms of the special resolution

cassed at the Extra-Gromary General Meeting

teid on 25th day of February, 2019 to enable that

empany to change its registered office from the

State of West Bengal to the National Capital

ny person whose interest is likely to be affected

ly the proposed change of the registered office of

he company may deliver either on the MGA 2"

ortal (www.mca.gov.in) by filing investor emplaint form or cause to be delivered or send

y rain stered bost of his/her object ans supported

ly an affidavit stating the nature of his/her-interest.

and arounds of apposition to the Regional

rector, Eastern Ragion, Ministry Of Corporate

Room No. 20, Kelkata-700066, West Bergal.

the government did not specify the reasons for the cancellation.

"Accordingly, the tender process of the coal mines...stands cancelled," the ministry said.

Under the sixth round, the government had earlier announced the auction of 13 blocks for the regulated sectors, including iron and steel, cement and aluminium.

/www.eauctions.co.in

Date and Time of Auction

Lot Particulars

for a period of 99 years

as stated above

Plant & Machinery (Re-rolling Mat)

VASUDEV ISPAT PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)

Contact 98301 19363 (C33 - 2211 B800, Email IC: cirp.vasudev@avipgroup.co.in

Notice is hereby given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code, 201,

and regulations framed thereunder, that the properties stated in Table below will be sold by E

Auction through the service provider V/s. Linkstar Infosys Private Limited -via website http:

ha EMD (Refundable) shall be payable by interested bidders through NEFT / RTGS on or before

28 03:2019 in an account of Vasudev Ispat Private Limited (In Liquidation) having Account No.

000605032469 with ICICI Bank Limited, R.N. Mukherjee Road Branch, Kolkata having IFSC -

ICIC0000006 CR by DD (Pay Order layour no "Vasudev Ispat Private Limited (In Liquidation).

For detailed terms & Conditions of Elauction sale, refer TENDER DOCUMENTS available on

Leasehold Land admeasuring 5 1725 Acre along with

Factory Shed at Mouza Dwar ka, JL No. 90, comprising Pict.

No. c1, L2, L3 (Fart), R.S. Dag No. 1 3.4.5.6,7,9.11 and 47

corresponding Khatian Nes. 265 305 303, 423, 453

and1423, P.S. Bishhupur, Dist. Bankura at WBIDC.

Bishnupur Growth Center within the limit of Dwarika

Gossinpur Gram Panchayal, Lease started on 01.11.2004

Land, Building and Plant & Machinery (Jointly) located

19.03.2019 between 12.00 P.M. to 05.00 P.M.

& Praceep Kumar Goenka - 98301 19363

Contact Person for Inspection, Mr. Ujja, Cas - 89186 52442

Reserve Price

550.00

Pradeep Kumar Goenka

The mines were Brahampuri, Bundu, Gondkari, Gondulpara, Jaganathpur – A, Jaganathpur–B, Khappa and Extn, Bhaskarpara, Marki Mangli – IV, Sondiha, Chitarpur, Jamkhani and Gare Palma

While in the seventh tranche

the coal ministry had said it would auction six coking coal blocks for

geshwar, Rabodh, Rohne and Urtan North. The tender process under the sixth and seventh rounds was 'initiated vide notice inviting tender

iron and steel sector. The blocks

were Brahmadiha, Choritand

Tilaiya, Jogeshwar and Khas Jo-

dated October 25, 2018', the ministry had said.

A source had earlier said the successful allottees of the 19 coal blocks will be allowed to sell up to 25% of the actual production in open market at prices fixed by state-owned Coal India.

NSE





Volatility is temporary.

Smart investors stay invested at all times.



Volatility is the natural behaviour of the market.

Disclaimera



Once the volatility phase is over, markets return to normalcy.



For better returns over the long term, it makes sense to stay invested.

Affairs 2344. A. J. C. Bose Road Nizam Palace. http://www.eauctions.co.in For any query regarding E-Auction, contact Mr. Dixt Prajacati (M. I-MSC Building, 3rd Floor, Kolkata-700020 within. 78741 38237; pradmin@eauctions.co.in pruipuipator on cirp.vasudev@avipgroup.co.in 4 Days from the date of publication of this notice yth a copy of the applicant company at its edistered office at the address mentioned abo-For and on behalf of the Petition Lieu AAR COMMERCIAL CO. L MI (ANUPAM KEETAN).

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF

RASOI LIMITED CIN: L25190WB1905PLC001594

Registered Office: Rasoi Court, 20 Sir R N Mukherjee Road, Kolkata- 700 001 Executive Director, Company Secretary & Compliance Officer: Mr. Naresh Patangi Phone No.: (033) 2248 0114/15; Fax No.: (033) 2248 1200 E-mail: secdept@rasoigroup.in; Website: www.rasoigroup.in

This Ext Offer Public Arms incomed. Exit Offer PAII is per unyough in according evert. Eag This

I mixed "PRIT is also a focated mixed "THIT). Yes, show a khocy and Yes, Sassin Yes you can in the condition of the soles to as the "Accountry" of provide the remaining Builde Shareholders (Residual Public Shareholders). Besulf mixed there with refer to tour star (Company). RASOF is a contoper that by the sole to the voluntary constant the I guty Share set for a year of RS 200 may be the Company trong SB on the line According to the discussion. n contraction with orthod Public Alindian and it false barrary 21, 16 Prij Public Announcement". "PA"; it is the False 11 2003 CPest Offer PAC

INTIMATION OF DATE OF DELISTING

vill be do sted from ESL with effect from Friday. When 25, 2018 (**BSE Date of Delisting**) DELISTING OF THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY MEANS THAT THE EQUITY SHARES OF

THE COMPANY CANNOT AND WILL NOT BE TRADED ON BSE.

OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING

SUMEDHA FISCAL SERVICES LIMITED

Tel No.: (033) 2229 8936

Fax No.: (033) 2226 4140

Name: Kuldip Balasia

Designation: Director

For J. L. Morison (India) Limited

Validity of Registration: Permanent

(Contact Person: Mr. Ajay K. Laddha)

Email: delisting mb@sumedhafiscal.com

Designation: Director

Signed on behalf of the Acquirers For Pallawi Resources Limited

Name: Ratnesh Kumar Chaudhary

For Leaders Healthcare Limited

in the Revense Beak Building Hipperson RBB Processing I who costables of a year to the Acquirers at the princion Rs. 32 COD+ per Equity Share ("Exit Price") for a period of one-



to the Registrar to the Delisting Offer, C B Management Services (P) Limited, clearly marking the envelop Offer, Sumedha Fiscal Services Limited at www.sumedhafiscal.com or from the website of the Registrar to th basis, within 10 days of the end of the relevant calendar month ("Monthly Payment Cycle"). The first Monthly Payment Cycle shall commence in 10 days from May 01, 2019 for shares tendered upto April 30, 2019 the instructions laid out in the Exit Letter of Offer. The Acquirers reserve the right to make the payment earlier If the Residual Public Shareholders have any query, they may contact the Manager to the Delisting Offer or to the Registrar to the Delisting Offer at details appearing below. Validity of Registration: Permanent (Contact Person: Mr. Subhabrata Biswas) 6A Geetaniali, 6th Floor, 8B Middleton Street, Kolkata -700 071 Tel No.: (033) 4011 6700, 4011 6715 Fax No.: (033) 4011 6739 Website: www.comsi.com Name: Suprava Rakshit



P.in • www.mstcecommerce.com

MSTC Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its equity shares and has filed the Red Herring Prospectus with the Interest Herring Prospectus is available on the website of Sebilal www.588bi.gov.in, BSE Limited all www.588bi.gov.in, National Stock Exchairing Prospectus of Trodia Limited all www.fiseinbia.com and the website of the BRCM all www.588bi.gov.in, BSE Limited all www.688bi.gov.in, National Stock Exchairing of India Limited all www.fiseinbia.com and the website of the BRCM all www.688bi.gov.in and the website of the BRCM all www.688bi.gov.in, BSE Limited all www.688bi.gov.in, BSE Limited all www.688bi.gov.in and the BRCM all www.688bi.gov.

Name: Pratick Saha Designation: Director

Place : Kolkata

Designation: Director

Designation: Executive Director Designation: Director

Shashi Mody Date: March 08, 2019

Name: Sohan Sarda

istrar of Companies

Name: Lalit Kumar Bararia

Name: Sonal Naik Designation: Company Secretary & Compliance Officer Sakshi Mody

'बढ़ रहा है डेटा उपभोग'

डेटा का उपभोग 72.6 फीसद की

सालाना दर से बढ़कर 2022 तक

1,09,65,879.30 करोड़ एमबी

पर पहुंच जाने का अनुमान है।

एसोचैम और पीडब्ल्यूसी के

अध्ययन के अनुसार डेटा का उपभोग 2017 में 7,16,710.30

करोड़ एमबी रहा जो 72 फीसद

की सालाना दर से बढ़कर 2022

तक 1,09,65,879.30 करोड़

एमबी तक हो जाएगा। (भाषा)

फार्म नं. आईएनसी-26

(कम्पनी निगमन निवनावली 2014 के निवन 30 के अनुपालन में

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में

थानांतरित करने इतु चमाचार पत्र में प्रकातित किया जाने वाला विज्ञाप

केन्द्र सरकार उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4)

और कम्पनी निगमन निवमावली 2014 के नियम 30 के

बत्रा बिजनैसेज प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन नं० यु51909

डीएल2014पीटीसी264163) जिसका पंजीकृत कार्यालय

कान नं. 1288, लम्बी गली बगीची गेंडा मल, नोवलटी

सिनेमा के पीछे, नई दिल्ली मध्य दिल्ली-110006 INमें है.

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी

प्राम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने

मंगलवार दिनांक 26.02.2019 को आयोजित अतिविशिष्ट

उप-नियम (5) के क्लीज (क) के मामले में

नई दिल्ली, 10 मार्च। देश में

छठे, सातवें दौर की कोयला खान नीलामी रह

नई दिल्ली, 10 मार्च (भाषा)।

दौर को रद्द कर दिया है। इनके जरिए सरकार की 19 कोयला ब्लॉकों की बिक्री की योजना थी। सरकार के नीलामी प्रकिया रद्द होने के कारण के बारे में नहीं बताया

है। मंत्रालय ने कहा 'इसके बाद कोयला खदानों की निविदा प्रक्रिया निरस्त हो गई है।' सरकार ने छठे दौर केंद्र ने कोयला खानों की नीलामी के छठे और सातवें के तहत एल्युमीनियम, सीमेंट लौह व इस्पात समेत नियमित क्षेत्र के लिए 13 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की थी। साथ ही सातवें दौर में लौह व इस्पात क्षेत्र के लिए छह कोकिंग ब्लॉक की नीलामी होनी थी।

SALORA

सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड सीआईएन:एल७४८९९डीएल1968पीएलसी००४९६२

पंजीकृत कार्यालयः डी–13 / 4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–2, नई दिल्ली-110020, फोनः 011-40552341

ई-मेल : sect@salora.com वेबसाइट: www.salora.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम 2009 (''सेबी डिलिस्टिंग विनियम'') के विनियमन 6 एवं 7 के अनुसरण

में सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड शनिवार, 9 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गए अनुसार अपने इविवटी शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (Symbol:SALORAINTL) से स्वैच्छिक डिलिस्टिंग के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है। यद्यपि, कम्पनी के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध जारी रहेंगे।

डिलिस्टिंगं की आवश्यकता एवं उद्देश्यः

तिथिः ९ मार्च, २०१९

नीलामी की तिथिः 18.03.2019

सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 18.03.2019

11, 2019 ("Post Offer PA").

2.1

INTIMATION OF DATE OF DELISTING

स्थानः नई दिल्ली

सिबी डिलिस्टिंग विनियम के अनुसार, कम्पनी की प्रतिभूतियां की उपरोक्त वर्णित स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्टिंग की जा सकती है जैसा कि कम्पनी के ?शेयर सूचीबद्ध है और यह बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध जारी रहेंगे। इक्विटी शयरों के असामान्य व्यापार के कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध रखने पर निवेशकों के लिए उपार्जित लाभ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर लिस्टिंग जारी रखने के लिए कम्पनी द्वारा किये जाने वाले व्यय के साथ मेल नहीं खा रहा है। इस डिलिस्टिंग के कारण शेयरधारकों को कोई परेशानी नहीं होगी जैसा कि कम्पनी के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड, जो कि राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल वाला स्टॉक एक्सचेंज है, मे सूचीबद्ध जारी रहेंगे। कृते सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड

के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

(सिल्की गुप्ता) कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत

कार्यालयः तल २, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि — 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300,

दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण

चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.12.2017 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों

Jhalrapatan (RA): MAL-94, MGL-59, 104, 113, 178, 488, 564, MHL-46, MSL-541, 642, 895, 901, 917, 945, 1082, 1094, 1095, 1096

1110, 1120, 1129, 1139, 1155, 1164, 1175, 1182, 1183, 1194, 1221, 1225, 1241, 1255, 1267, 1278, MUL-18, 28, 52, 83, 98, 100, 146

158, 160, 163, 167, 168, 199, 202, 224, 232, 233, 234, 245, 301, 318, Jhalwar (RA): MAL-114, 135, MGL-12, 74, 89, 159, 169, 192

216, 239, 240, 269, 347, 375, 393, 408, 466, 485, 504, 527, 577, MSL-884, 1225, 1240, 1255, 1256, 1258, 1269, 1277, 1354, 1360,

1361, 1364, 1365, 1380, 1381, 1385, 1386, 1392, 1396, 1417, 1461, 1515, 1526, 1606, 1656, 1663, 1748, MUL-13, 20, 40, 54, 57, 59

62, 75, 76, 93, 95, 111, 135, 136, 147, 162, 169, 170, 171, 177, 178, 181, 192, 213, 252, 254, 282, 284, 302, 306, 316, 319, 323

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित

नीलामी वहाँ दिनांक 19.03.2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र Above Oriental Bank of Commerce, Bus Stand Road, Jhalrapatan

- 326023 में संचालित की जाएगी ∕ जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी

सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त

Ramganj Mandi (RA): MAL-611, 726, 746, 765, 791, 799, 889, 921, 925, 932, MBL-1591, MGL-657, 1202, 1216, 1234, 1250, 1253

1318, 1359, MOL-44, MSL-5623, 5638, 5639, 5685, 5686, 5693, 5703, 5776, 5779, 5789, 5807, 5813, 5824, 5826, 5838, 5857, 5872

5879, 5942, 5945, 5950, 5951, 5957, 5958, 5966, 5967, 5977, 6025, MUL-3, 26, 68, 75, 101, 103, 107, 111, 114, 120, 134, 138, 157

163, 175, 202, 204, 216, 225, 241, 254, 264, 266, 278, 289, 310, 312, 338, 358, 370, 377, 381, 382, 385, 387, 393, 394, 403, 408

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर–॥, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा

सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461. पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF

RASOI LIMITED

CIN: L25190WB1905PLC001594

Registered Office: Rasoi Court, 20 Sir R N Mukherjee Road, Kolkata- 700 001

Executive Director, Company Secretary & Compliance Officer: Mr. Naresh Patangi

Phone No.: (033) 2248 0114/15; Fax No.: (033) 2248 1200

E-mail: secdept@rasoigroup.in; Website: www.rasoigroup.in

This Exit Offer Public Announcement ("Exit Offer PA") is being issued in accordance with Regulation 21 and other

applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as

amended from time to time ("Delisting Regulations") by J. L. Morison (India) Limited ("JLMIL"). Pallawi Resources I J.

9,267 (Nine Thousand Two Hundred Sixty Seven) Equity Shares representing 9.59% of fully paid up equity share capital of the Company held by the Residual Public Shareholders. This Exit Offer PA is in continuation of, and should be read

in conjunction with (i) the Public Announcement dated January 21, 2019 ("Public Announcement"/ "PA"), (ii) the Letter

of Offer dated January 22, 2019 ("Letter of Offer"/ "LOF") and (iii) the Post Offer Public Announcement dated February

Capitalised terms used but not defined in this Exit Offer PA shall have the same meaning assigned to them as in the

Following the closure of the Delisting Offer and in accordance with the Delisting Regulations, the Company had

applied to BSE Limited ("BSE") i.e. the only Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are

presently listed on February 20, 2019 seeking the final approval for delisting of its Equity Shares from the BSE.

BSE vide its notice number 20190308-14 dated March 08, 2019 ("BSE Final Delisting Approval"), has communicated that trading in the Equity Shares of the Company (Scrip Code: 507649) will be discontinued with

effect from Friday, March 22, 2019 ("BSE Date of Discontinuance of Trading") and the above referred scrip

DELISTING OF THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY MEANS THAT THE EQUITY SHARES OF

In accordance with regulation 21(1) of the Delisting Regulations, and as announced earlier in the Post Offer

PA, the Residual Public Shareholders of the Company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to age is the company who did not participate or were not able to a company who did not participate or were not able to a company who did not appear to a company who allows the com

in RBB process and are currently holding Equity Shares in the Company will be able to offer their Equity Shares

to the Acquirers at the price of Rs. 32,000/- per Equity Share ("Exit Price") for a period of one year starting from the Date of Delisting i.e., from March 29, 2019 to March 28, 2020 ("Exit Period"/ "Exit Window")

The Exit Letter of Offer along with Exit Application Forms ("Exit Letter of Offer") in this regard shall be dispatched

to the Residual Public Shareholders whose names appear in the register of members of the Company/ list of

beneficial owners to be furnished by respective depositories as on March 26, 2019. In the event of any

to the Registrar to the Delisting Offer, C B Management Services (P) Limited, clearly marking the envelope "RASOI LIMITED - EXIT OFFER" at P-22, Bondel Road, Kolkata- 700 019. Alternatively, the Residual Public

Shareholders will be able to download the Exit Letter of Offer from the website of the Manager to the Delisting Offer, Sumedha Fiscal Services Limited at www.sumedhafiscal.com or from the website of the Registrar to the

Subject to any regulatory approvals as may be required, the Acquirers intend to make payments on a monthly basis, within 10 days of the end of the relevant calendar month ("Monthly Payment Cycle"). The first Monthly Payment Cycle shall commence in 10 days from May 01, 2019 for shares tendered upto April 30, 2019 Payments will be made only to those Shareholders who have validly tendered their Equity Shares, by following

the instructions laid out in the Exit Letter of Offer. The Acquirers reserve the right to make the payment earlier.

If the Residual Public Shareholders have any query, they may contact the Manager to the Delisting Offer or to

in the Reverse Book Building Process ("RBB Process") or who unsuccessfully tendered their Equality

Public Announcement, the Letter of Offer, the Post Offer PA and the Exit Letter of Offer (As defined below)

will be delisted from BSE with effect from Friday, March 29, 2019 ("BSE Date of Delisting").

THE COMPANY CANNOT AND WILL NOT BE TRADED ON BSE

Delisting Offer, C B Management Services (P) Limited at www.cbmsl.com.

the Registrar to the Delisting Offer at details appearing below.

PAYMENT OF CONSIDERATION TO RESIDUAL PUBLIC SHAREHOLDERS

OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING

424, 426, 427, 445, 467, 469, 475, 489, 492, 495, 501, 515, 520, 537, 585, 588, 590, 660, 667, 689, 694, 760

आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

फार्म नं. आईएनसी–26 कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनसरण में} केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले

ईशान ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74899DL1993PTC051721) जिसका पंजीकृत कार्यालय : ए-70डी, एस.एफ.एसफ्लैटस, मयूर विहार, फेस-।।।, दिल्ली-110096 में हैं। के मामले में,

एतदुद्धारा जनसामान्य को सुचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तृत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 8 फरवरी, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली" से "गुजरात राज्य" में बदलने हेत् पारित किया

पंजीकृत कार्यालय को ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकत कार्यालय 'राजस्थान राज्य'' में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु कम्पनी के संख्था के मेमोरेंडंग ऑफ एसोसिएशन देते हए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें में परिवंतन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 की उनके हित्र विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने (www.mca.gov.in) पर निवेशक उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट का प्रस्ताव करती है। कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीवत कार्यालय व भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली -110003 को प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आराय एवं आपति पंजीकत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी की पुष्टभूमि को दर्शाते हुए MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में पर इनवेस्टर कम्पलेन्ट फार्मे को भरके या एक शपथपत्र के साथ ए-70डी, एस.एफ.एस फ्लैटस, मयूर विहार, फेस-॥। अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक दिल्ली- 110096 पर इस सूचना के छपने के 14 (चीदह) बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्लॅक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से दिनों के भीतर भेज दे

कृते ईशान ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड विषि: 09.03.2019 गंगाधर रामचन्द्र कहाते (निदेशक)

डीआईएन: 00193616

तिथि : 11-3-2019 त्थान : नई दिल्ली

के मामले मे..

डीआईएन 02093806

चीदह दिनों के शीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक

कम्पनी के निम्नलिखित वर्णित पंजीकृत कार्वालय मे भी भेजी जानी

पंजीकृत कार्यालय : मकान नं. 1288, लम्बी गली बगीची गेंडा मल

नोवजटी क्षिनेमा के पीछे. नई दिल्ली मध्य दिल्ली-110006 आइएन

कृते कम्पनी की ओर से बजा बिजनैसेज प्राइवेट लिमिटेड

निवासी - 4-KA-33, जवाहर नगर, जवपुर (राजस्थान)-302004 फार्म नं. आईएनसी 25ए

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम 2013 की घारा 14 और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

मैसर्स संजय क्मार एण्ड कम्पनी एक्जिम लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 21 / 8, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 (CIN: U51909DL1993PLC051693)

शम जनता को एतददारा सचित किया जाता है र्र लिए समक्ष बनाने हेत् ऐसे बदलाव को प्रभावी करने साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14

दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालय पताः 21 / 8, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 कृते संजय कुमार एण्ड कम्पनी एक्जिम लिमिटेड

तिथि : 09.03.2019

स्थान : नई दिल्ली (निदेशक)

प्रपत्र–आईएनसी–26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (क) के अनुसरण में]

सार्वजनिक सूचना

होतील निह्नेप्राक ,पद्यपी, होत..... Limited ("PRL") - Limited ("LHL"), Mrs. Shashi Mody and Mrs. Sakshi Mody (hereinafter collectively referred to as the "Acquirers"), to provide the remaining Public Shareholders ("Residual Public Shareholders") of बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय Rasoi Limited (hereinafter referred to as the "Company"/ "RASOI") an exit opportunity in respect of the voluntary delisting of the Equity Shares of face value of Rs. 200/- each of the Company from BSE Limited. The Acquirers intend to acquire

पंजीकृत कार्यालय 27, सभाष शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

Shareholder not receiving, or misplacing their Exit Letter of Offer, they may obtain a copy of the same by writing

इंएसएस जीईई ट्रेंड्ज प्राइवेट लिमिट

FORM No. INC-26

In the matter of the Rule 30 (5)(a)

of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

LIMITED having its Registered Office at 1.

Territory of Delhi.

Date: 11.03.2019

संजय वावला

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGION REGION REGION REGION REGIONAL DIRECTOR, EASTERN REGION REGION REGION In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; And The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; And The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; And The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; And The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; And The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; And The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; And The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013; The matter of Sub-section (4) of Section (4) of Section (4) of Section

the matter of AAR COMMERCIAHई दिल्ली, 10 मार्च (भाषा)।

India Street (Old Complex) Mezzanine Floor Room No. 20, Kolkata-700069, West Bengal. राजस्थान और आसपास के सरसों के Notice is hereby given to the general pub अत्मादक राज्यों में आवक शुरू होने के साथ the company proposes to make application to the company proposes to make application to the Central Government, Regional Director, Edite मिंडियों में इसके भाव नीचे जाने लगे हैं। Region, Ministry Of Corporate Affairs, ह्यापारियों का मानना है कि सरकार को under Section 12 and 13 and other approvisions, if any, of the Companies Act, 20 स्थूजितम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद Rules made thereunder seeking confirmation of alteration of the memorandum of associations करनी चाहिए ताकि बाजार संभले the company in terms of the special ressilting किसानों का नुकसान न हो। इस साल held on 25th day of February, 2019 to enaish theny सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य company to change its registered office from State of West Bengal to the National क्रि200 रुपए क्विंटल तय किया गया है Territory of Delhi. Any person whose interest is likely to be आजादिक वाजार में बिना मंडी शुल्क और

by the proposed change of the registered सीलार्थ पड़ता की शर्त वाली सरसों का भाव the company may deliver either on the MCA-21

portal (www.mca.gov.in) by filing in3,500+3,600 रुपए क्विंटल चल रहा है। complaint form or cause to be delivered or sen by registered post of his/her objections supported पारियों के अनुसार सरसों के प्रमुख by an affidavit stating the nature of his/her iउत्पादक राजस्थान सरकार ने 15 मार्च से and grounds of opposition to the Re Director, Eastern Region, Ministry Of Coक्ष्यका की खरीद की योजना बनायी है। खाद्य Affairs, 234/4, A. J. C. Bose Road, Nizam Folasco, II-MSO Building, 3rd Floor, Kolkata-70002 ते.लाँ। की प्रमुख मंडी दिल्ली के व्यापारियों के 14 Days from the date of publication of this अनुसार खुले बाजार में लूज में सरसों का registered office at the address mentioned भाव। 3,500 से 3,600 रुपए क्विंटल के

प्रायोगिक आधार पर नौकरी बदलने पर ईपीएफ के स्वतः हस्तांतरण पर काम कर रहा है। सभी सदस्यों के लिए सुविधा अगले साल किसी भी समय शुरू की जा सकती है।' बदलने पर ईपीएफ के स्वतः हस्तांतरण पर काम कर रहा है। सभी सदस्यों के लिए सुविधा अगले साल किसी भी समय शुरू की जा सकती है।' अधिकारी ने कहा, 'ईपीएफओ ने कागजविहीन संगठन बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी परिचालन प्रणाली

के अध्ययन का काम सी-डैक को दिया है।

अभी 80 फीसद कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं।

नोकरो बदलने पर अपने आप

होगा ईपीएफ स्थानांतरण

हर साल ईपीएफ स्थानांतरण करने के करीब आठ लाख आवेदन मिलते हैं ईपीएफओ को

• श्रम मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, 'ईपीएफओ

बदलने पर ईपीएफ का स्वतः हस्तांतरण महत्वपूर्ण है।' अधिकारी ने कहा कि जैसे ही नए नियोक्ता मासिक ईपीएफ रिटर्न दायर करेंगे जिसमें नए कर्मचारी का यूएएन भी शामिल होगा, वैसे ही पहले के ईपीएफ योगदान और उस पर अर्जित ब्याज का स्वतः हस्तांतरण हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'नौकरी बदलने पर ईपीएफ का स्वतः हस्तांतरण होने पर सदस्यों को काफी लाभ होगा क्योंकि यूएएन एक बैंक खाते की तरह हो जाएगा। इससे कोई अंत नहीं पडेगा कि सदस्य जगह या नियोक्ता बदलता है, ईपीएफ में वह अपना योगदान यूएएन के जरिये हासिल कर सकेंगे। यह कर्मचारियों के परे जीवन के दौरान लाग रहेगा।'

लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नौकरी

चंदामामा के प्रकाशक स्विस बैंकों में अवैध पैसा रखने में फंसे

नई दिल्ली, 10 मार्च (भाषा)

नई दिल्ली, 10 मार्च (भाषा)।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(ईपीएफओ) के सदस्यों को अगले वित्त वर्ष

से नौकरी बदलने पर ईपीएफ राशि स्थानांतरण

करने का अनरोध करने की आवश्यता नहीं

होगी। इस प्रक्रिया को स्वचालित बनाने पर

काम चल रहा है। अभी ईपीएफओ के सदस्यों

को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) रखने

के बाद भी ईपीएफ स्थानांतरण करने के लिए

अलग से अनुरोध करना पड़ता है। ईपीएफओ

को हर साल ईपीएफ स्थानांतरण करने के

श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,

'ईपीएफओ प्रायोगिक आधार पर नौकरी

करीब आठ लाख आवेदन मिलते हैं।

दशकों पुरानी बालपत्रिका चंदामामा के नए मालिक स्विस बैंकों में अवैध पैसा रखने के मामले में फंस गए हैं।

मुंबई की जियोडेसिक लिमिटेड ने इस प्रतिष्ठित पत्रिका को 2007 में खरीद लिया था। कंपनी के तीन निदेशकों के खिलाफ धन के हेर-फेर और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच चल रही है। स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों में इन तीनों के खातों के संबंध में प्रशासनिक सहयोग देने की सहमति व्यक्त की है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार स्विट्जरलैंड के संघीय कर विभाग ने पांच मार्च को जियोडेसिक लिमिटेड और इसके तीन निदेशकों प्रशांत शरद मुलेकर, पंकजकुमार ओंकार श्रीवास्ताव और किरण कुलकर्णी के बैंक खातों के संबंध में प्रशासनिक सहयोग देने का निर्णय किया है।

स्विट्जरलैंड के कानून के अनुसार कर विभाग के निर्णय के खिलाफ 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। इससे पहले विभाग ने कंपनी और तीनों निदेशकों के मामले में 30 अक्तूबर, 2018 को भी सहयोग का निर्णय लिया था। उक्त निर्णय को चुनौती दिए जाने के बाद विभाग ने फिर से सहयोग का निर्णय लिया है। इससे संकेत मिलता है कि पहले की गयी अपील टिकने योग्य प्रमाणों पर आधारित नहीं थी। स्विटुजरलैंड के कर विभाग ने इसी तरह के एक अन्य मामले में चेन्नई की कंपनी आदि एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को लेकर भी सहयोग करने का निर्णय पांच मार्च को लिया है। जियोडेसिक विभिन्न नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर पहले भी सेबी की कार्रवाई का सामना कर चुकी है।

विद्युत वाहनों के लिए फेम-2, अगले महीने से वित्तीय प्रोत्साहन

नई दिल्ली, 10 मार्च (भाषा)।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और को बढ़ावा देने के लिए पेश फेम – दो योजना के तहत अप्रैल से 10 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को 20,000 रुपए और 35,000 चार पहिया वाहनों को डेढ लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इससे खरीदारों के लिए वाहन खरीदना सस्ता होगा। इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल (फेम) के दूसरे चरण को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। कुल 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली यह योजना तीन वर्षों के लिए शुरू की

भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इसके तहत 7090 इलेक्ट्रिक बसों (कारखाने पर दो करोड़ रुपए मूल्य तक की) पर प्रति बस 50 लाख रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसके अलावा पांच लाख ई - रिक्शों में प्रत्येक को 50,000 रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन देने की तैयारी है। कारखाने पर 15 लाख रुपए तक के 35,000 इलेक्ट्रिक कारों पर डेढ़ लाख रुपए की छूट मिलेगी जबकि 15 लाख रुपए मुल्य तक तक के 20,000 हाइब्रिड चौपहिया वाहनों पर 13,000 रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। वाहन उद्योग ने आम चुनावों के लिए आचार संहिता लाग होने से पहले फेम - दो योजना की घोषणा करने के सरकार के कदम की सराहना की है क्योंकि और देरी का मतलब है कि इस योजना की शुरुआत नई सरकार के गठन के बाद ही होती। सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने कहा, 'यह सही समय पर दिया गया अवसर है क्योंकि फेम - एक और फेम दो के बीच कोई अंतराल नहीं है।'

पेट्रोल-डीजल महंगा, मदद

मांगी गई सऊदी अरब से

कार व आभूषण खरीदना हो सकता है सस्ता

नई दिल्ली , 10 मार्च (भाषा)।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा - शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने कहा कि जीएसटी देनदारी की गणना के समय स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) की राशि को उत्पाद के मुल्य से अलग रखा जाएगा। इससे महंगी कार और आभूषण खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। आयकर अधिनियम के तहत 10 लाख

रुपए से ऊपर के वाहन, पांच लाख रुपए से अधिक के आभूषण और दो लाख रुपए से माज्यादा का सोना - चांदी खरीदने पर स्रोत पर कर वसुली (टीसीएस) एक प्रतिशत लगता है। धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 अन्य चीजों की खरीद पर भी अलग-अलग दरीं से टीसीएस लगता है। सीबीआइसी ने ईएसएस जीईई ट्रेंब्ज प्राइवेट लिमिटेड, जिस्मारिपत्र में कहा कि वस्तु और सेवा कर

नियर अपु घर, रोहतक – 124001 (हरियाणा) (भीएसटी) देयता की गणना करते समय टीसीएस राशि को माल के मूल्य से अलग रखा हारा इसका पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य से स्माएगा । इससे पहले दिसंबर में बोर्ड ने कहा था कि आयकर अधिनियम के तहत जिन उत्पादों शिष प्रस्पर स्रोत पर कर वसुली लागू होती है, उन पर संजोधन की पुष्टि के लिए एक आवेदन कम्पर्जीएसटी की गणना के दौरान टीसीएस राशि को अधिनियम, 2013 की घारा 13 के अधीन क्षेत्रीय निदेशका उत्तरी क्षेत्र, बी—2 विंग, द्वितीय तल, पंडित, दीनदयारी इसमें शामिल किया जाएगा। विभिन्न अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली—1100हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया और केंद्रीय कोई मी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीस्प्रत्यक्ष कर बोर्ड से बातचीत के बाद

कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित डोने सीबीआइसी ने फैसला किया है कि जीएसटी भपभपन वारा समर्थित अपनी आपन्तिलागाने के उद्देश्य से माल का मूल्यांकन करने होत्रीय निदेशक, चत्त्वरी होत्र, बी-2 विंग, हितीय जन एंडिन टीनट्यान अंत्योदय भवन संश्लितोसमय टीसीएस राशि को अलग् रखा जाएगा। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि टीसीएस माल पर कर नहीं है बल्कि विक्रेता की माल की बिक्री से होने वाली संभावित क्ते एवं हिते अञ्जास ' पर लगने वाला अंतरिम शुल्क है।

बाद टवीट में कहा कि मैंने ईंधन की बढ़ रही कीमतों पर अपनी चिंता अल - फलीह के सामने जाहिर की है और कीमतों को उचित स्तर बनाए रखने के लिए उनसे सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। रविवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधान ने कच्चे तेल के

उम्मीद के साथ साथ तेल निर्यातक देशों के

संगठन ओपेक के सहयोगी रूस द्वारा तेल आपूर्ति

में कटौती बढ़ाने की घोषणा शामिल है। चीनी-

अमेरिका व्यापार युद्ध से वैश्विक आर्थिक

गतिविधियों में गिरावट आई है। प्रधान ने शनिवार

रात भारत की यात्रा पर आए सऊदी अरब के

पेट्रोलियम मंत्री खालिद अल - फलीह के सामने

ईंधन की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया और

कीमतों को कम करने में अहम भूमिका निभाने

प्रधान ने अल - फलीह के साथ बैठक के

की मांग की है।

प्रमुख उत्पादक और वैश्विक तेल बाजार में संतुलन बनाए रखने में सऊदी अरब की भूमिका का उल्लेख किया। प्रधान ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी को लेकर

पेट्रोल - डीजल के दामों में फिर से तेजी को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश सऊदी अरब से कच्चे तेल की दरों को उचित स्तर पर बनाए प्रधान ने ओपेक समेत अन्य देशों के उत्पादन रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील में कटौती के निर्णय को देखते हुए भारत को कच्चे तेल और रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति की पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले एक महीने में दो रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के बीच व्यापार मोर्चे पर टकराव समाप्त होने की

जरूरत पर भी जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने हाल में हुई भू – राजनीतिक घटनाक्रमों का वैश्विक तेल बाजार पर पडने वाले नकारात्मक असर पर भी चर्चा की है। हालांकि , इसमें भारत की मांग के संबंध में अल - फलीह ने क्या कहा इसके बारे में नहीं बताया गया है। पिछले एक महीने में पेट्रोल और डीजल के दामों में क्रमशः 2.12 रुपए और 2.03 रुपए की तेजी आई है। दिल्ली में रविवार को पेट्रोल 72.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 67.54 रुपए प्रति लीटर पर था। निवेश के लिए भी न्योता : भारत ने देश

में रणनीतिक तेल भंडारण सुविधा के क्षेत्र में सऊदी अरब को निवेश के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही सरकार सऊदी अरब के साथ मिलकर 44 अरब डालर यानी करीब 3.08 लाख करोड़ रुपए की लगात से एक नया तेल शोधन व पेटोरसायन संयंत्र स्थापित करने की परियोजना को जीवित रखने का प्रयास कर रही। महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिल में स्थापित की जाने ली इस परियोजना के लिए वहां की सरकार तय जगह पर जमीन का प्रबंध नहीं कर सकी है।

देश में खाद्य तेल की कमी और बाजार में सरसों समर्थन मूल्य से नीचे

For and on behalf of the Petitiones में बोले जा रहे हैं जबकि

(АЛИРАМ КНУनीसीडीईएक्स में 42 फीसद कंडीशन (42 Whole-Time Division पड़ता की शर्त वाली) सरसों का

अप्रैल, मई, जून डिलीवरी के वायदा सौदों में सरकार को सरसों किसानों को समर्थन देना बोले जा रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि इस समय मंडियों में तेल-पड़ता की शर्त और शुल्क के बिना बिक रही सरसों के भाव वायदा बाजार से कम होने का कारण यह है कि वायदा बाजार में भाव आढ़त, लदान और दूसरे खर्चे जोड़ने के साथ-साथ 42 फीसद तेल के पड़ता की शर्त के साथ खरीदे बचे जाते हैं। इसके अलावा सरकारी खरीद शुरू होने पर बाजार में सुधार की उम्मीद भी है। रबी मौसम की सरसों की आवक फरवरी के आखिर में शुरू हो गई। सबसे पहले राजस्थान के कोटा में सरसों की आवक होनी शुरू हुई। इस साल सरसों की 90 लाख टन पैदावार होने का अनुमान लगाया जा रहा है जबिक पिछले साल 80 लाख टन तक उत्पादन हुआ था।

अलवर, राजस्थान के तेल व्यापारी अर्पित गुप्ता का कहना है, इसे बिडंबना ही कहा जाएगा कि जिस देश में खाद्य तेलों की 70 फीसद तक कमी है उस देश में तिलहनों का दाम समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा है।

भाव 3,846-3,920 रुपए क्विंटल के बीच चाहिए। देश में खाद्य तेलों के लगातार बढ़ते आयात की वजह से घरेलू स्तर पर पैदा होने वाले तेल तिलहन के बाजार को समर्थन नहीं मिल पाता है। हालांकि, सरकार इनके समर्थन मूल्य में हर साल कुछ न कुछ वृद्धि करती रहती है। सरसों की खेती करने वाले कुछ किसान बताते हैं कि सरकार ने पिछले साल हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में करीब साढ़े आठ लाख टन तक सरसों की खरीद की थी। इस साल 90 लाख टन तक सरसों की पैदावार होने की उम्मीद है, ऐसे में किसानों को समर्थन देने के वास्ते सरकार को सरसों की कम से कम 25 से 30 लाख टन तक खरीद करनी चाहिए। जानकारों का कहना है कि देश में खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति खपत पश्चिमी देशों के 35 किलो के मुकाबले काफी कम है। उनका कहना है कि देश में आज स्थिति यह है कि 235 लाख टन की कुल खपत में 160 से 170 लाख टन तेलों का आयात होता है जबकि मात्र 70 से 75 लाख टन ही देश में तैयार होता है।

SUMEDHA FISCAL SERVICES LIMITED CIN: L70101WB1989PLC047465 SEBI REGN No: INM000008753 Validity of Registration: Permanent (Contact Person: Mr. Ajay K. Laddha) 6A Geetanjali, 6th Floor, 8B Middleton Street, Kolkata -700 07: Tel No.: (033) 2229 8936 Fax No.: (033) 2226 4140 Email: delisting_mb@sumedhafiscal.com Website: www.sumedhafiscal.com Signed on behalf of the Acquirers For Pallawi Resources Limited

MANAGER TO THE DELISTING OFFER:

SUMEDHA

Name: Ratnesh Kumar Chaudhary

Name: Suprava Rakshit Designation: Director Designation: Director For Leaders Healthcare Limited

Name: Kuldip Balasia Name: Pratick Saha Designation: Director Designation: Director For J. L. Morison (India) Limited

Name: Sohan Sarda Name: Lalit Kumar Bararia Name: Sonal Naik Designation: Director Designation: Company Secretary Designation: Executive Director & CEO & Compliance Officer

Shashi Mody Sakshi Mody Date: March 08, 2019

REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER:

C B MANAGEMENT SERVICES (P) LIMITED

CIN: U74140WB1994PTC062959

SEBI REGN No: INR000003324

Fax No.: (033) 4011 6739

Website: www.cbmsl.com

Email: rta@cbmsl.com

Validity of Registration: Permanent

P-22, Bondel Road, Kolkata - 700 019

Tel No.: (033) 4011 6700, 4011 6715

(Contact Person: Mr. Subhabrata Biswas)

Place : Kolkata

नई दिल्ली

FORM No. INC-26 BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, EASTERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, KOLKATA In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013;

In the matter of the Rule 30 (5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

n the matter of: AAR COMMERCIAL CO LIMITED having its Registered Office at 1, British India Street (Old Complex) Mezzanine Floor, Room No. 20, Kolkata-700069, West Bengal.

Notice is hereby given to the general public that the company proposes to make application to the Central Government, Regional Director, Eastern Region, Ministry Of Corporate Affairs, Kolkata under Section 12 and 13 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder seeking confirmation of alteration of the memorandum of association of the company in terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on 25th day of February, 2019 to enable the company to change its registered office from the State of West Bengal to the National Capital Territory of Delhi.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interes and grounds of opposition to the Regiona Director, Eastern Region, Ministry Of Corporate Affairs, 234/4, A. J. C. Bose Road, Nizam Palace II-MSO Building, 3rd Floor, Kolkata-700020 within 14 Days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned above For and on behalf of the Petitioner AAR COMMERCIAL CO. LIMITED

(ANUPAM KHETAN) Date: 11.03.2019 Whole-Time Director Place : Kolkata DIN: 07003797

जाहीर नोटीस

मे. दिपक वाईन्स, एफएल-२ क्र. १७, ही अनुज्ञप्ती शॉप नं. ३, सिल्वर क्राफ्ट, पाली रोड, पाली मार्केटच्या समोर, बांद्रा (प.), मुंबई या ठिकाणी कार्यरत असून सदरची अनुज्ञप्ती श्री. दिपक चंद्रसेन करमचंदानी योच्या नावे कार्यरत असन अनुज्ञप्तीधारक यानी त्यांचे आरोग्य व आर्थिक अडचणीमुळे सदर अनुज्ञप्तीमध्ये श्री. रोहित उद्धवदास करीरा यांचे नाव नवीन भागीदार म्हणून सामाविष्ट करण्याची विनंती दिनांक ०५.०३.२०१९ रोजीच्या अर्जान्वये केली आहे. तरी याबाबत कोणास काही हरकत असल्यास त्यांनी त्यांचे लेखी आक्षेप ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून ८ दिवसाच्या आत 'अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क,

मुंबई उपनगरे, जुने जकात घर, तळमजला, फोर्ट, मुंबई - २३'' य पत्त्यावर पाठवावी. जर वरील मुदतीत कोणतेही लेखी श्लाक्षेप प्राप्त न झाल्यास सदर अनुज्ञप्तीमध्ये श्री. रोहीत उद्धवदास करीरा यांचे नाव नवीन भागीदार म्हणून

स्वाक्षरीत/ जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर करीता

समाविष्ट करण्यात येईल.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that My clients M/s. Maauli Creations Pvt.

Ltd. have acquired development

rights from the OMKAR CO-**OPERATIVE HOUSING SOCIE-**TY LTD., (Registration No. BOM//HSG/TC/3120/87-88), in respect of the under mentioned property Ltd. My clients have instructed me to investigate title and issue Title Clearance Certificate in respect of the said property. All persons having any right or claim upon the said Property or any part thereof by way of sale, mortgage, lease, gift, Decree, possession, Court Decree or otherwise are required to intimate the undersigned in writing along with supporting documentary evidence at his office at Akanksha, 2nd Floor, Sane Guruji Nagar, Mulund (East), Mumbai-400 081, within Fourteen days from the date hereof, failing which it will be presumed that there are no such claims and if any, the same are waived or abandoned and the title of the said Society to its said Property shall be certified by me

SCHEDULE OF THE PROPERTY All that piece and parcel land or ground hereditaments and premises together with the Building standing thereon bearing Survey No. 57, Hissa No. 2 & 5, C.T.S. No. 201/8 & 201/9 admeasuring 1294.4 sq. mtrs. or thereabouts of Village Mulund (East), Taluka Kurla, Mumbai Suburban District, situated at Mahakali Nagar, G & H Building, V.B. Phadke Marg, Mulund (East), Mumbai-400 081 & assessed under T-Ward Nos. TX-0113122240000 and TX-0113121940000.

as clear and marketable .

Mumbai Dated 11th March. 2019 Sd/-

> SAMIR K. VAIDYA (Advocate)

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण मुंबई न्यायपीठासमोर

कंपनी योजना अर्ज क्र. १२२४/२०१८ कंपनी अधिनियम २०१३ च्या प्रकरणी; आणि

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम २३० ते २३२ सह कलम ६६ आणि इतर लागु असणाऱ्या तरतुर्दीच्या प्रकरणी;

नीला टेलिफिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नीला फिल्म प्रॉडक्शन प्रायव्हेट लिमिटेर आणि श्रीमय क्रिएशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांचे प्रत्येकांचे भागधारक यांच्यामधीत विलीनीकरणाची संयुक्त योजना आणि व्यवस्थेच्या प्रकरणी.

नीला टेलिफिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ही कंपनी अधिनियम १९५६ च्या तरतुर्दीअंतर्गत CIN 792110MH2004PTC148327 द्वारे स्थापन ज्ञाली असून त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय, ४०१, स्टॅनफोर्ड, सीटीएस नं. ५५४/१ ते ४, एसव्ही रोड आणि जुहू लेन जंक्शन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५८, महाराष्ट्र येथे आहे.

..... प्रथम अर्जदार कंपनी **नीला फिल्म प्रॉडक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड**, ही कंपनी अधिनियम १९५६ च्या तरतुर्दीअंतर्गत CIN U92100MH2018PTC308081 द्वारे स्थापन झाली असून त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय, ४०१, स्टॅनफोर्ड, सीटीएस नं. ५५४/१ ते ४, एसव्ही रोड आणि

जुहू लेन जंक्शन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५८, महाराष्ट्र येथे आहे. . द्वितीय अर्जदार कंपनी **श्रीमय क्रिएशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड** ही कंपनी अधिनियम १९५६ च्या तस्तुदींअंतर्गत CIN U74120MH2014PTC254225 द्वारे स्थापन झाली असून त्यांचे नोंदणीकृत

कार्यालय, ४०१, स्टॅनफोर्ड, सीटीएस नं. ५५४/१ ते ४, एसव्ही रोड आणि जुहू लेन जंक्शन, अधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५८, महाराष्ट्र येथे आहे. तृतीय अर्जदार कंपनी भागधारक आणि ऋणदाते यांच्या सभेची सूचना

याद्वारे सुचना देण्यात येत आहे की, कंपनी योजना अर्ज क्र.१२२४ मध्ये संकीर्ण अर्ज क्र ७३० / २०१९ मध्ये दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पारित 🛮 झालेल्या आदेशान्वये तसेच दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या संकीर्ण अर्जाच्या आदेशान्वये, नीला टेलिफिल्म्स प्रायव्हे लिमिटेड आणि नीला फिल्म प्रॉडक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि श्रीमय क्रिएशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांचे प्रत्येकांचे भागधारक यांच्यामधील विलीनीकरणाची संयुक्त योजना आणि व्यवस्थेवर विचार करण्यासाठी आणि योग्य वाटल्यास सुधारणेसह किंवा सुधारणेविरहित मंजूरीसाठी, मा. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणच्या मुंबई न्यायपीठाद्वारे, ('न्यायाधिकरण') प्रथम अर्जदार कंपनी, द्वितीय अर्जदार कंपनी आणि तृतीय अर्जदार कंपनी आणि प्रथम अर्जदार कंपनीचे, द्वितीय अर्जदार कंपनीचे आणि तृतीय अर्जदार कंपनीचे समभागधारक, प्रथम अर्जदार कंपनीचे सुरक्षित व असुरक्षति ऋणदाते आणि द्वितीय अर्जदार कंपनीचे व तृतीय अर्जदार कंपनीचे असुरक्षित ऋणदाते यांची सभा घेयासाठी निर्देश दिले आहेत.

सदर आदेश आणि त्यातील आदेशाच्या अनुषंगाने पुढे सूचना देण्यात येत आहे की, प्रथम अर्जदार कंपनीच्या समभागधारकांची सभा, ४०१, स्टॅनफोर्ड, सीटीएस नं. ५५४/१ ते ४, एसव्ही रोड आणि जुहू लेन जंक्शन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५८, येथे दिनांक १५ एप्रिल २०१९ रोजी दुपारी २:०० वाजता, द्वितीय अर्जदार कंपनीची सभा ४०१, स्टॅनफोर्ड, सीटीएस न ५५४/१ ते ४, एसव्ही रोड आणि जुहू लेन जंक्शन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५८ येथे दिनांक १५ एप्रिल २०१९ रोजी दुपारी ४:०० वाजता आणि तृतीय अर्जदार कंपनीची सभा, ४०१ 🕊 टॅनफोर्ड, सीटीएस नं. ५५४/१ ते ४, एसव्ही रोड आणि जुहू लेन जंक्शन, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई ४०००५८ येथे दिनांक १५ एप्रिल २०१९ रोजी सायंकाळी ५:३० वाजता घेण्यात येईल आणि प्रथम अर्जदार कंपनी, द्वितीय अर्जदार कंपनी आणि तृतीय अर्जदार कंपनीचे समभागधारक यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी त्या वेळी आणि स्थळी उपस्थित रहावे.

सदर आदेश आणि त्यातील आदेशाच्या अनुषंगाने पुढे सूचना देण्यात येत आहे की, प्रथम अर्जदार कंपनीच्या सुरक्षित ऋणधारकांची सभा, ४०१, स्टॅनफोर्ड, सीटीएस नं. ५५४/१ ते ४ एसव्ही रोड आणि जुहू लेन जंक्शन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५८ येथे दिनांक १५ एप्रिल २०१९ रोजी सकाळी १०:०० वाजता, प्रथम अर्जदार कंपनीच्या असुरक्षित ऋणधारकांची सभा, ४०१, स्टॅनफोर्ड, सीटीएस नं. ५५४/१ ते ४, एसव्ही रोड आणि जुहू लेन जंक्शन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५८ येथे दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजी सकाळी १०:०० वाजता, द्वितीय अर्जदार कंपनीच्या असुरक्षित ऋणधारकांची सभा, ४०१, स्टॅनफोर्ड, सीटीएस नं. ५५४/१ ते ४, एसव्ही रोड आणि जुहू लेन जंक्शन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५८ येथे दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजी दुपारी २:०० वाजता, तृतीय अर्जदार कंपनीच्या असुरक्षित ऋणधारकांची सभा ४०१, स्टॅनफोर्ड, सीटीएस नं. ५५४/१ ते ४, एसव्ही रोड आणि जुह लेन जंक्शन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५८ येथे दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजी दुपारी ४:०० वाजता घेण्यात येईल आणि प्रथम अर्जदार कंपनी, द्वितीय अर्जदार कंपनी आणि तृतीय अर्जदार कंपनी यांच्या ऋणधारकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी त्या वेळी आणि स्थळी उपस्थित रहावे

सदर योजना आणि कलम २३० अंतर्गत विधान यांची प्रत, प्रथम अर्जदार कंपनी, द्वितीय अर्जदार कंपनी आणि तृतीय अर्जदार कंपनी यांच्या नोंदणीकृत कार्यालयात विनामृल्य उपलब्ध राहील सदर सभांना उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्ती, व्यक्तीश: किंवा प्रतिनियक्त व्यक्तीद्वारे मत देऊ शकतील तथापि विहित प्रपत्रातील प्रतिनियक्ती प्रपत्रे प्रथम अर्जदार कंपनी, द्वितीय अर्जदार कंपनी आणि तृतीय अर्जदार कंपनी यांच्या ४०१, स्टॅनफोर्ड सीटीएस नं. ५५४/१ ते ४, एसव्ही रोड आणि जुह लेन जंक्शन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५८ येथील नोंदणीकत कार्यालयात सभेपूर्वी कमीत कमी ४८ तास आधी दाखल होणे

प्रतिनियुक्ति प्रपत्रे अर्जदार कंपन्यांच्या नोंदणीकृत कार्यालयांमध्ये उपलब्ध राहतील. समभागधारकांच्या आणि स्रक्षित व अस्रक्षित ऋणधारकांच्या वरील सभांचे अध्यक्ष म्हणून मा न्यायाधिकरणाने श्री. पधिक शाह यांची नेमणुक केली आहे. प्रथम अर्जदार कंपनी, द्वितीय अर्जदार कंपनी आणि तृतीय अर्जदार कंपनीच्या समभागधारकांनी व ऋणधारकांनी त्यांच्या सदर सभांमध्ये मंजरी दिल्यास ती न्यायाधिकरणाच्या नंतरच्या मंजुरीसापेक्ष राहील. श्री, पथिक शाह

सभेसाठी नियुक्त अध्यक्ष

मुंबई, दिनांक ११ मार्च २०१९

फॉर्म क्र. आयएनसी-२६ (कंपनीज (इन्कॉर्पोरेशन) रुल्स, २०१४ च्या नियम ३० अन्वये)

र्सीपिव ज्ञ९२२९श ज२आ८७(ब)-२७९श ग-५२ढग-६(८इ६-६९८७(ब)-२८

फॉर्म नं. ०४ (रूल ५ चा सब रूल २(ए) पहा.)

अर्थ मंत्रालुय, वित्त सेवा विभाग मुंबई कर्ज वस्ती न्यायाधिकरण नं. ३ **9ला मजला, एमटीएनएल एक्सचेंज बिल्डींग, रघुलीला मॉल शेजारी**, वाशी रेल्वे स्टेशनजवळ, वाशी, नवी मुंबई–४००७०३. फोन–०२२–२७८৭२३५०

> पेपर प्रसिद्धीद्वारे समन्स मूळ अर्ज क्र. ८५०/२०१८

निशाणी क्र. १०

ऑक्सिस बँक लि. विरुध्द साहेबराव शंकर शिरसाट आणि इतर

.प्रतिवादी

.अर्जदार

ज्याअर्थी मूळ अर्ज हा माननीय पीठासीन अधिकारी यांच्यासमोर सादर करण्यात आला होता. ज्याअर्थी सदर माननीय न्यायाधिकरण सदर अर्जाच्या संदर्भात सदर ॲक्टचे सेक्शन १९(४) अंतर्गत आपल्या विरोधात कर्जाची येणे बाकी रक्कम 🔻 २९,८६,९९९/- वसूल करण्याच्या मागणीबाबत (मूळ अर्ज) आपणास समन्स/नोटीस जारी करीत आहे. (अर्ज कागदपत्रांच्या प्रतींसह जोडलेला आहे.)

सदर ॲक्टचे सेक्शन १९ च्या सब-सेक्शन (४) अनुसार आपणा प्रतिवादींना पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे.

१) हे समन्स मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत सदर अर्जात करण्यात आलेल्या मागण्या मान्य का केल्या जाऊ नयेत, याची कारणे द्यावीत.

२) अर्जदारांनी मूळ अर्जातील अनुक्रमांक ५ अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या मालमत्ता आणि भांडवले याव्यतिरिक्त असलेल्या मालमत्ता आणि भांडवल उघड कराव्यात.

 मूळ अर्जातील अनुक्रम अंतर्गत ज्याची सुनावणी अनिर्णित आहे आणि मालमत्ता जप्त करण्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्जाचा निर्णय अनिर्णित आहे, या संदर्भातील उघड करण्यात आलेल्या मालमत्ता किंवा सुरक्षित मालमत्ता यांच्याबाबत व्यवहार करण्यास किंवा मालमत्तांची विल्हेवाट लावण्यास आपणास प्रतिबंध करण्यात येत आहे.

४) मूळ अर्जातील अनुक्रमांक ३ए अंतर्गत ज्याची सुनवाणी अनिर्णित आहे ओणि मालमत्ता जप्त करण्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्जाचा निर्णय अनिर्णित आहे, त्या संदर्भातील उघड करण्यात आलेल्या मालमत्ता किंवा स्रक्षित मालमत्ता यांच्या संदर्भात सर्वसाधारण पध्दतीव्यतिरिक्त विक्री, लीज किंवा अन्य मागनि न्यायाधिकरणाच्या पूर्व परवानगीविना किंवा व्यवहार करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे.

५) व्यवहाराच्या सर्वसाधारण पध्दतीत सदर सुरक्षित मालमत्ता किंवा अन्य भांडवल आणि मालमत्ता यांची विक्री करुन जर काही रक्कम आली, तर अशी रक्कम अन्य मालमत्तांच्या संदर्भात वित्तीय हितसंबंध धारण करणारी बँक किंवा वित्तीय संस्था यांनी त्यासाठी तयार केलेल्या खात्यात जमा करणे आपणास बंधनकारक आहे.

आपणास अशी सूचना देण्यात येत आहे की, आपण या संदर्भात लेखी निवेदन सादर करावे ज्याची एक प्रत अर्जदारांना पाठवावी आणि सदर न्यायाधिकरणासमोर दि. १५/०४/२०१९ रोजी स. ११.३० वा. हजर रहावे. त्यात कसूर झाल्यास आपल्या अनुपस्थितीत अर्जावर सुनावणी करून निर्णय देण्यात येईल.

माझ्या हरूते आणि न्यायाधिकरणाच्या शिक्क्यासह **दि. १९ फेब्रुवारी २०१९** रोजी दिले

न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार, आय/सी रजिस्ट्रार, एमडीआरटी-III, मुंबई

१. श्री. साहेबराव शंकर शिरसाट २. श्री. भारत शंकरराव शिरसाट, दोघेही रा : मु. पो. वनी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक, पिन-



नोंद. कार्यालय: ९ वा मजला, अंतरिक्ष भवन, २२, के. जी. मार्ग, नवी दिल्ली-११०००१. फोन : ०११–२३३५७१७१, २३३५७१७२, २३७०५४१४. वेबसाईट : www.pnbhousing.com

> शाखेचा पत्ता : १ला मजला, कपूर हाऊस, महिला संघ स्कूल जवळ, हनुमान रोड, विलेपार्ले-पूर्व, मुंबई-४०० ०५७, दू. क्र.: ०२२-२६१००४८० ई-मेल : mumbai@pnbhounsing.com संकेतस्थळ : www.pnbhounsing.com

जाहीर सूचना – स्थावर मिळकतींचा ई–लिलाव नि विक्री जोडपत्र IV-ए आणि नियम ८ (६) च्या तरतुदीनुसार स्थावर मिळकतीच्या विक्रीकरिता ई-लिलाव-विक्री सूचना

(सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्क्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ अन्वये) तारखेपर्यंत सुधारणेनुसार जनतेला सूचना याद्वारे देण्यात येते की, पीएनबी हाऊसिंग फायनान्स कंपनी लि. (पीएनबीएचएफएल) कंपनी अधिनियम, १९५६ अन्वये एक नोंदणीकृत हाऊसिंग फायनान्स कंपनी (एचएफसी), नॅशनल हाऊसिंग बँक ॲक्ट १९८७ च्या कलम २९-

ए अन्वये नेंशनल हाऊसिंग बँक म्हणन सद्धा नोंदणीकत आणि जिचे प्रवर्तक पंजाब नॅशनल बँक आहे. ज्याअर्थी निम्नस्वाक्षरीकारांनी पीएनबी हाऊसिंग फायनान्स लि.चे पाधिकत अधिकारी या नात्याने सिक्यरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस ॲण्ड एन्फोर्सेमेट ऑफ सिक्यरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट. २००२ अन्वये आणि कलम १३(१२) सहवाचता सिक्यरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेट) रुल्स २००२ नियम ९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून सदरह सचना प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांत प्रत्येक खात्यासमोर नमुद केलेली रक्कम चुकती करण्यासाठी संबंधित कर्जदारांना बोलविण्यासाठी प्रत्येक खात्यासमोर नमुद तारखेस मागणी सूचना जारी केली होती. कर्जदारांनी सदरह रक्कम चेकती करण्यास कसूर केलेली म्हणून कर्जदार आणि हमीदार यांना सूचना याद्वारे देण्यात येते की पीएनबीएचएफएलच्या प्राधिकृत अधिकारी यांनी प्रत्येक खात्यासमोर नमूद केलेल्या तारखेस सदरह अधिनियमाच्या कलम १३(४) सहवाचता सदरह

नियमावलीच्या नियम ८ आणि ९ अन्वये त्यांना/तिला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून येथील खालील वर्णिलेल्या तारण धनकोंकडे गहाण/प्रभारित स्थांवर मिळकतींचा प्रत्यक्ष/रचनात्मक कब्जा घेतलेला आहे. येथे खालील दिलेल्या संक्षिप्त तपशिलानुसार ''जे आहे जेथे आहे आणि जे आहे जसे आहे तत्त्वावर'' स्थावर मिळकतीच्या खरेदीसाठी जाहीर लिलावामार्फत (ई-लिलावासह) किंवा जाहिर लिलाव (बोली प्रपत्र प्राधिकृत अधिकारी यांना मोहोरबंद लिफाफ्यातून देण्यात यावे) तारण धनकोंद्वारे प्रस्ताव मागविण्यात येत आहे. पीएनबीएचएफएलकडे असलेल्या कर्जदारांच्या कर्ज खात्या संबंधात तारण म्हणून ह्या सर्व मिळकती ठेवल्या होत्या. येथे खाली वर्णन केल्याप्रमाणे कर्ज खात्यातील थकबाकी रकमेच्या वसुलीसाठी सदर मिळकती

अ. कर्ज कर्जदार/सहकर्जदार/ मागणी रक्कम आणि कब्जाचा गहाण मिळकतीचे वर्णन राखीव किंमत इअर (रा.किं. च्या निरीक्षणाची लिलावाची ज्ञात भार जर

ज. क्र.	क्याते क्र. (ए)	हमीदारांचे नाव (बी)	तारीख (सी)	प्रकार (डी)	्रहाज मिळक्साच चर्चम (ई)	राखाय किमा रा.किं. (एफ)	इजर (रा.का. व्या १०%) (जी)	तारीख व वेळ (एच)	तारीख व वेळ (आय)	असल्यास (जे)
۶.	००१३ ६६६०००५ २१७००१३ ६६६०००३ ९३५ आणि ००१३	डी ३ आर्केड प्रायव्हेट लिमिटेड, मे. सिक्किम फेरो अलॉयज लिमिटेड श्री. कमलेश मनोहर कनुंगो	०४-०१-२०१९ रु. १८,३१,००,९१५.५६ (रुपये अकरा करोड एकतीस लाख नऊशे पंधरा आणि	सांकेतिक कब्जा	फ्लंट क्र. ४३०४, ए १ मिनेर्वा एन. एम. जोशी मार्ग लगत, महालक्ष्मी मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००११. (३ बीएचके फ्लंट चटई क्षेत्र – ११५२ चौ.फू. ३ कार पार्किंग सह)	रु. ४,००,००,०००/ – (रुपये चार करोड मात्र)	रू. ४०,००,०००/- (रूपये चाळीस लाख मात्र)	१६.०३.२०१९ स. ११.०० वा.	१२.०४.२०१९ जून दु. १२.०० ते दु. २.००	शून्य
	६६६०००५ ३१४ शा. का. मुंबई विलेपार्ले		छप्पन्न पैसे मात्र)	छप्पन्न पस मात्र)	फ्लंट क्र. ४५०४, ए १ मिनेर्वा एन. एम. जोशी मार्ग लगत, महालक्ष्मी मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००११. (३ बीएचके फ्लंट चटई क्षेत्र – ११५२ चौ.फू. ३ कार पार्किंग सह)	रु. ४,००,००,०००/- (रुपये चार करोड मात्र)	रु. ४०,००,०००/ – (रुपये चाळीस लाख मात्र)			
			एन. एम. जोशी महालक्ष्मी मुं ४०००११. (३ च्राटई क्षेत्र - कार पार्किंग स फ्लॅट क्र. ४०० एन. एम. ज महालक्ष्मी मुं ४०००११. (३ च्रटई क्षेत्र - कार पार्किंग स	फ्लंट क्र. ४३०४, विंग ए, मिनेर्वा एन. एम. जोशी मार्ग लगत, महालक्ष्मी मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००११. (३ बीएचके फ्लंट चटई क्षेत्र – ११५२ चौ.फू. ३ कार पार्किंग सह)	रु. ४,००,००,०००/- (रुपये चार करोड मात्र)	रू. ४०,००,०००/- (रुपये चाळीस लाख मात्र)				
				फ्लॅट क्र. ४००४, विंग ए, मिनेवां एन. एम. जोशी मार्ग लगत, महालक्ष्मी मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००११. (३ बीएचके फ्लॅट चटई क्षेत्र - ११५२ चौ.फू. ३ कार पार्किंग सह)	रु. ४,००,००,०००/ – (रुपये चार करोड मात्र)	रु. ४०,००,०००/- (रुपये चाळीस लाख मात्र)				
				13	फ्लॅट क्र. ४८०४, विंग ए, ४८ मजला, मिनेर्वा एन. एम. जोशी मार्ग लगत, महालक्ष्मी मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००११. (३ बीएचके फ्लॅट चटई क्षेत्र – ११५२ चौ.फू. ३ कार पार्किंग सह)	रु. ४,००,००,०००/- (रुपये चार करोड मात्र)	रु. ४०,००,०००/- (रुपये चाळीस लाख मात्र)			
ज्याअ	र्थी. तारण धनको	(पीएनबीएचएफएल) च्या प्राधि	कत अधिकाऱ्यांनी सदर मिळव	कती निकाली क	ाढण्याचे ठरवले. ही विक्री सचना आज प्रक	जिशित करण्यात येत आहे की. व	वर तपशील दिलेल्या मिळकती	वरील विहित तारखेस.	वेळेस व तिकाणी वि	कल्या जातील.

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF RASOI LIMITED CIN: L25190WB1905PLC001594

Registered Office: Rasoi Court, 20 Sir R N Mukherjee Road, Kolkata- 700 001 Executive Director, Company Secretary & Compliance Officer: Mr. Naresh Patangi Phone No.: (033) 2248 0114/15; Fax No.: (033) 2248 1200 E-mail: secdept@rasoigroup.in; Website: www.rasoigroup.in

This Exit Offer Public Announcement ("Exit Offer PA") is being issued in accordance with Regulation 21 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended from time to time ("Delisting Regulations") by J. L. Morison (India) Limited ("JLMIL"), Pallawi Resources Limited ("PRL"), Leaders Healthcare Limited ("LHL"), Mrs. Shashi Mody and Mrs. Sakshi Mody (hereinafter collectively referred to as the "Acquirers"), to provide the remaining Public Shareholders ("Residual Public Shareholders") of Rasoi Limited (hereinafter referred to as the "Company"/ "RASOI") an exit opportunity in respect of the voluntary delisting of the Equity Shares of face value of Rs. 200/- each of the Company from BSE Limited. The Acquirers intend to acquire 9,267 (Nine Thousand Two Hundred Sixty Seven) Equity Shares representing 9.59% of fully paid up equity share capital of the Company held by the Residual Public Shareholders. This Exit Offer PA is in continuation of, and should be read in conjunction with (i) the Public Announcement dated January 21, 2019 ("Public Announcement"/ "PA"), (ii) the Letter of Offer dated January 22, 2019 ("Letter of Offer"/ "LOF") and (iii) the Post Offer Public Announcement dated February

11, 2019 ("Post Offer PA"). Capitalised terms used but not defined in this Exit Offer PA shall have the same meaning assigned to them as in the Public Announcement, the Letter of Offer, the Post Offer PA and the Exit Letter of Offer (As defined below).

INTIMATION OF DATE OF DELISTING

Following the closure of the Delisting Offer and in accordance with the Delisting Regulations, the Company had applied to BSE Limited ("BSE") i.e. the only Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed on February 20, 2019 seeking the final appropriate of the PSE vide its notice number 20100308 14 detect Market 1997